



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019  
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 09, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9479** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Pilibanga has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Pilibanga. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

**कार्यालय नगरपालिका मंडल पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़**

**प्रारूप - क**

वार्ड नम्बर 1

कन्धारी ड्रीम लैण्ड से उत्तर की ओर चलकर दर्शन गिल के खेत तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर रामकिशन वाल्मिकी के मकान को शामिल करते हुए श्मशान भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने से उत्तर की ओर मुड़कर श्मशान भूमि को शामिल करते हुए श्मशान भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर मुड़कर आईडीएसएमटी कॉलोनी व हरपाल बाजीगर की ढाणी को शामिल करते हुये नगरपालिका सीमा से दक्षिण की ओर मुड़कर कब्रिस्तान भूमि के सीधे नगरपालिका सीमा पर जाकर पूर्व की ओर चलकर कब्रिस्तान भूमि को बीच में से क्रॉस करते हुए वहां से पूर्व की ओर मुड़कर चम्पा लाल पण्डित के मकान व कमल नयन के मकान व गुरुद्वारा को शामिल करते हुए हरदम मिस्त्री के मकान से उत्तर की ओर मुड़कर दलविन्द्र पार्षद के मकान से पूर्व में प्रेम मीणा की दुकान को शामिल करते हुए रोहिताश की दुकान से दक्षिण की ओर मुड़कर तोजेन्द्र के नोहरे तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर मैन रोड़ तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर मैन रोड़ पर चलते हुए कन्धारी ड्रीम लैण्ड के गेट तक।

## वार्ड नम्बर 2

बन्ता सिंह कुम्हार के नोहरे से पश्चिम की ओर चलकर मास्टर मनोहर लाल के मकान को शामिल करते हुए दयाल सिंह गिल के मकान तक व वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर कर हरदम मिस्त्री के मकान को छोड़ते हुए वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर हरभजन सिंह गिल व ईकबाल सिंह मान को शामिल करते हुये व कृष्ण मेघवाल के मकान को शामिल करते हुये कब्रिस्तान भूमि को कब्रिस्तान भूमि को बीच में से क्रॉस करते हुए नगरपालिका सीमा तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर श्रवण सीआई के मुरब्बे तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर नन्दराम कुम्हार के मकान को शामिल करते हुये अवतार सिंह मान के मकान तक वहां से उतर की ओर मुड़कर राजेन्द्र डुमडा के मकान को शामिल करते हुये वहां से पूर्व की ओर मुड़कर भगवानाराम मेघवाल व मुरलीधर के मकान को शामिल हुये सुभाष मांझू वहां से उतर की ओर मुड़कर प्रेम मान्झु के मकान को शामिल करते हुये बन्ता सिंह कुम्हार के नोहरे तक।

## वार्ड नम्बर 3

नगरपालिका सीमा से श्रवण सीआई के मुरब्बे को छोड़ते हुए मैन रोड को क्रॉस करते हुए नगरपालिका सीमा के साथ साथ एसटीजी नहर के साथ साथ तक वहां से पूर्व की ओर नहर के साथ साथ चलकर संजय मांझू के खेत तक वहां से उत्तर की ओर चलकर आनन्द सिंह जाट के खेत तक वहां से रेलवे लाईन के साथ साथ पश्चिम की ओर चलकर अण्डरब्रिज को पार करते हुए लखुवाली ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ साथ तोजेन्द्र के नोहरे तक वहां से नोहरे को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर मुड़कर लाजेन्द्र के नोहरे तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर सुभाष मांझू के मकान तक वहां से सुभाष मांझू के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर चलकर महेन्द्र कस्वां के मकान तक वहां से थोड़ा दक्षिण की ओर मुड़कर अवतार सिंह के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर मुड़ते हुए नगरपालिका सीमा तक

## वार्ड नम्बर 4

कन्धारी ड्रीम लैण्ड के गेट से उत्तर की ओर चलकर धोहरी खाला के साथ साथ चलकर श्याम विहार कॉलोनी के सामने से पूर्व की ओर मुड़कर श्याम विहार कॉलोनी तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर सतीस मित्तल के मकान को शामिल करते हुए चैक तक वहां से पूर्व की ओर चलकर न्यू ऐरा स्कूल तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर पार्क को शामिल करते हुए मैन रोड तक वहां से पश्चिम की ओर मैन रोड पर चलते हुए कन्धारी ड्रीम लैण्ड के गेट तक।

## वार्ड नम्बर 5

सेतिया सुपर स्टोर से मैन रोड से उतर की ओर चलकर रोहतकिया के मकान को शामिल करते हुये मदन जिन्दल के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बालिका स्कूल को शामिल करते हुये वहां

से दक्षिण की ओर मुडकर डाक्टर राजेन्द्र गहलोत्रा के मकान को शामिल करते हुये सुरजीत सिंह गिरधर के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर कृष्ण गोयल वीरा के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर अग्रवाल धर्मशाला मैन रोड तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर मंगत राम सीमेन्ट व मौक्ष कुलर कम्पनी को शामिल करते हुये सेतिया सुपर स्टोर तक।

#### वार्ड नम्बर 6

परशुराम चैक से उतर की ओर चलकर आत्मप्रकाश बालान को शामिल करते हुये डाक्टर प्रेम भाटी के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर चरणजीत के मकान तक वहां से उतर की ओर चलकर कमलजीत अरोडा के मकान को शामिल करते हुये हीरालाल धानक के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर रामप्रताप धानक के मकान को शामिल करते हुये व धानमण्डी के उतरी पश्चिमी कोना वहां से दक्षिण की ओर मुडकर अर्जुन सिंह कॉलोनी तक वहां से पूर्व की ओर चलकर धानमण्डी व मुकेश चिलाना के मकान को शामिल करते हुये परशुराम चैक तक।

#### वार्ड नम्बर 7

श्याम लाल कुम्हार के मकान से उतर कि ओर चलकर पवन गोयल के मकान को शामिल करते हुये धनराज सोनी के मकान तक वहा से पश्चिम कि ओर मुडकर जगन लाल के मकान व गुरुद्वारा को शामिल करते हुये गउशाला की दिवार तक वहा से दक्षिण कि ओर चलकर धानमण्डी को शामिल करते हुये दिवार के साथ वहा से पूर्व कि ओर चलकर पत्रकार कालोनी को शामिल करते हुये मास्टर विक्रमजीत के मकान तक वहा से पूर्व की ओर मुडकर बजीर चन्द ओड के मकान को शामिल करते हुये शीतला माता के मन्दिर तक वहा से प्रेम कुमार के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण ओर ओमप्रकाश वर्मा कि दुकान तक वहा से पूर्व ओर चलकर श्याम लाल कुम्हार के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 8

भगवान सिंह जटसिक्ख के मकान से पूर्व की ओर चलकर मेडी तक वहा से उतर कि ओर चलकर वीर सिंह टेलर के मकान को शामिल करते हुये सुरेन्द्र बानिया तक वहा से पूर्व कि ओर मुडकर जयपाल सोनी के मकान व लाला गोलगप्पे वाला के मकान को शामिल करते हुये छगन मरेजा के मकान तक वहा से उतर कि ओर चलकर ओम सोनी व सन्दीप सर्वटा के घर को शामिल करते हुये ओम बेगड के मकान तक वहा से पश्चिम कि ओर चलकर शारदा वाल्मिकि के मकान को शामिल करते हुये सत्यानारायण प्रेमी के मकान तक वहा से दक्षिण ओर मुडकर राजू सिन्धी के मकान को शामिल करते हुये मोहन टेलर के मकान तक। वंहा से पश्चिम कि ओर चलकर सुरेन्द्र गोदारा तक वहा से दक्षिण कि ओर मुडकर बन्ता सिंह डाईवर व दयानन्द पब्लिक स्कुल को शामिल करते हुये भगवान सिंह जटसिक्ख के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 9

बाबू राम अग्रवाल के मकान से पूर्व कि ओर चलकर मुखत्यार धानक के मकान से उतर कि ओर बलवीर शर्मा के मकान को शामिल करते हुये पिस्ता देवी के मकान तक वहा से पूर्व कि ओर चलकर टोनी धोवी तक वहा से दक्षिण की ओर चलकर इन्दिरा रामगडिया के मकान को शामिल करते हुये शराब ठेके तक। वहा से पश्चिम की ओर चलकर कलवन्त के मकान को शामिल करते हुये इदरजीत के मकान तक। वहा से उतर की चलकर इदर सिंह डेलू के मकान से पश्चिम कि ओर पाल रामगडिया के मकान को शामिल करते हुये सोहन लाल मिस्तरी के मकान तक। वहा से उतर कि ओर चलकर सदीप अरोड के मकान तक। वहा से पश्चिम कि ओर चलकर स्वराज सिंह जटसिक्ख व सुरेश धानक के मकान को शामिल करते हुये अनिल मिठठा के मकान तक। वहा से उतर कि ओर चलकर हरदत्तमल अग्रवाल को शामिल करते हुये बाबू राम अग्रवाल के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 10

मनोज बंसल के मकान से पूर्व कि ओर चलकर मास्टर भगवान दास के मकान को शामिल करते हुये रवि कुमार के मकान तक। वहा से दक्षिण की ओर चलकर नारायण सिंह भाटी के मकान तक। वहा से पूर्व की ओर वैयर हाउस को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर वाल्मिकि चैक तक। वहा से पश्चिम कि ओर चलकर वन-विभाग को शामिल करते हुये परशुराम चैक तक । वहा से उतर की ओर सुशिल कुमार शर्मा व ओम नाई पूर्व पार्शद के मकान को शामिल करते हुये मनोज बंसल के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 11

हनुमान शर्मा पर्व उपाध्यक्ष के नोहरे से पर्व कि ओर चलकर असेरी होस्पिटल व अरोडावंश धर्मशाला को शामिल करते हुये वालमिकि चैक को शामिल करते हुए सिंगला वस्त्र भण्डार तक वंहा से दक्षिण की ओर चलकर आईसीआईसीआई बैंक तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर पारीक ब्यूटि पैलेस तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर सीद्ध आटो मोबाईल तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर सोहनलाल राठी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर तीन बत्ती चैक तक वहां से मैन रोड के साथ साथ कृष्ण जिन्दल वकिल के मकान तक वहां से उत्तर की ओर विजय पेन्टर की दुकान तक वहां से पश्चिम की ओर दलीप सिंह गिल के मकान को शामिल करते हुये। देव कृष्ण के मकान तक वहा से उतर की ओर चलकर कन्या पाठशाला के पास ट्रांसफार्मर तक वहां से पश्चिम की ओर बाबा रामदेव मन्दिर को शामिल करते हुये तावणिया हाउस तक वहा से उतर की ओर हनुमान प्रसाद शर्मा के नोहरे तक।

#### वार्ड नम्बर 12

वाल्मिकी चैक से पूर्व ओर चलकर राजकीय अस्पताल खरलियां रोड तक वहां से थोड़ा उत्तर की ओर मुडकर धर्मदास मोची के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर सेठी के मकान तक वहां से

ताराचंद के मकान को शामिल करते हुए शीला देवी के मकान तक वहां से खेमचंद के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर धाणक धर्मशाला तक वहां से उत्तर की ओर चलकर भतेरी देवी के मकान को शामिल करते हुए राजा सिंह के आरा तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर जगदीश पटवारी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर अमर सिंह के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर फ्लाईंग क्रोस लेते हुए लेखराम के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर प्रकाश नाई के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर खरलियां रोड़ पर महाराणा प्रताप चैक तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर 77 दुकानों के साथ साथ वेयर हाऊस रोड़ तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर स्कूल के साथ साथ वाल्मिकी चैक तक।

#### वार्ड नम्बर 13

सुभाष गर्ग के मकान से उत्तर की ओर खरलियां रोड़ तक चलकर महेन्द्रा रेफ्रिजरेशन की दुकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर कन्हैयालाल मोची के मकान तक वहां से थोड़ा दक्षिण की ओर चलकर रतन मेघवाल के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर धाणक धर्मशाला तक धाणक धर्मशाला के उपर की तरफ घुमकर रामप्रताप की हरा टाल तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर मनीष गर्ग की दुकान तक वहां से डेरेवाल की चक्की को छोड़ते हुए सुभाष गर्ग के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 14

तीन बत्ती चैक से मैन रोड़ होते हुए अनिल टायर को शामिल करते हुए नामदेव जुस भण्डार तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए रामा वैरायटी स्टोर को शामिल करते हुए गिरधारी छिम्पा के मकान को शामिल करते हुए मनीष गर्ग की दूसरी दुकान तक वहां से पश्चिम की ओर डेरेवाल की चक्की को शामिल करते हुए विजय एम्पोरियर तक वहां से खरलियां रोड़ क्रोस करते हुए लवली केक पाईन्ट को शामिल करते हुए पारीक ब्यूटी पैलेस तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर बाघला मार्किट तक वहां से रामा कुक्कड़ की दुकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलकर तीन बत्ती चैक तक।

#### वार्ड नम्बर 15

बद्री सहारण के खेत से मैन रोड़ पर चलते हुए सांसी मोहल्ला बस स्टेण्ड रेलवे स्टेशन को शामिल करते हुये मैन रोड़ पर चलकर नगरपालिका सीमा की पूर्वी साईड तक वहां से दक्षिण की ओर नगरपालिका सीमा पर चलते हुए एसटीजी नहर तक वहां से पश्चिम की ओर आरसीपी कॉलोनी जम्भेश्वर कॉलोनी व बीरबल विहार कॉलोनी व अन्य ढाणियों को शामिल करते हुए व नहर के साथ साथ जसवंत रायसिंह के खेत तक वहां से उत्तर की ओर चलकर बद्री सहारण के खेत तक।

#### वार्ड नम्बर 16

नेहरू धर्मशाला से मैन रोड़ पर पूर्व की ओर चलकर पीडब्लयुडी आफिस को शामिल करते हुये कुबेर सीडस तक वहां से उत्तर की ओर चलकर दुग्गड इस्ट्रस्टीज तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर

पीरखाना को छोड़ते हुए एलएमबी मिठाई फैक्ट्री को शामिल करते हुए संजय पार्क तक वहां से उत्तर की ओर चलकर सोहनलाल लौहार के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर नगरपालिका तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर नेहरू धर्मशाला तक।

#### वार्ड नम्बर 17

होत प्रकाश नागपाल के मकान से पश्चिम की ओर चलकर संजय सोनी के मकान तक वहां से उतर की ओर चलकर देशराज अरोडा के मकान को शामिल करते हुए संजय मांझू के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर पटवार घर तक वहां से उतर की ओर चलकर चांद मोहम्मद के मकान को शामिल करते हुये सत्यनारायण पण्डित के नोहरे तक वहां से पूर्व की ओर चलकर बन्द गली में फलाईंग कवर करते हुये यासिन जोईया के मकान को शामिल करते हुये वहां से उतर की ओर मुड़कर करामत अली के मकान को शामिल करते हुये रामकुमार सोनी के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर धन्नाराम कुम्हार के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर कृष्णलाल कामरा के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर पूर्णचंद गोगणा के मकान को शामिल करते हुए अजय मित्तल के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर ताराचंद की वर्कशाप तक वहां से पीरखाना व बिश्नोई धर्मशाला को शामिल करते हुए अमृता देवी पार्क तक वहां से उत्तर की ओर चलकर होत प्रकाश नागपाल के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 18

श्री चन्द आहुजा के मकान से पश्चिम की ओर चलकर वेद प्रकाश मांवर के मकान को शामिल करते हुये पाना देवी धाणक के मकान तक वहां से उतर की ओर मुड़कर प्यारेलाल मांवर के मकान को शामिल करते हुए नाजर सिंह के आरा तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर जमनादास बारूपाल पार्क तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर नाजर सिंह के मकान को शामिल करते हुए औमप्रकाश के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बंतसिंह मिस्त्री के मकान तक वहां से पवन के चिल्लाना के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलकर शास्त्री की चक्की तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर महेन्द्र सिंह के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर पटवार घर ट्रासफार्मर तक वहां से पश्चिम की ओर से चलकर संजय मांझू के प्लाट तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर श्रीचंद आहुजा के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 19

कैलाश राजपुरोहित के नोहरे से पश्चिम की ओर चलकर हुये अजायब सिंह बराड के मकान को शामिल करते हुये सुरेन्द्र सिंह रैना के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजकुमार फण्डा के मकान को शामिल करते हुये जवाहर लाल डीपू होल्डर को शामिल करते हुये वहां से पश्चिम की ओर चलकर भगवान सिंह रामगढियां के मकान को शामिल करते हुये

चैथमल सोनी की दुकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर नाजर सिंह के आरा तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर आरा को शामिल करते हुए भजन सिंह के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर हरविन्द्र सिंह के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बलराम पुनिया के मकान को शामिल करते हुए सुरेश अग्रवाल के मकान तक वहां से उतर की ओर चलकर शास्त्री की चक्की तक वहां से पूर्व की ओर चलकर बागड़ सोनी के मकान तक वहां से गजानन्द अग्रवाल के मकान को शामिल करते हुये कैलाश राजपुरोहित के नोहरे तक।

#### वार्ड नम्बर 20

नौलखा फैक्ट्री से आर कुलर फैक्ट्री तक वहां से फैक्ट्री को छोड़ते हुये पूर्व की ओर चलकर निहंगो के आरा को शामिल करते हुए रणजीत सिंह के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर दर्शन छिम्पा के मकान को शामिल करते हुये रामकुमार के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर राजकुमार वकील के मकान को शामिल करते हुये नौलखा फैक्ट्री तक।

#### वार्ड नम्बर 21

चैथूराम के मकान से दक्षिण की ओर चलकर भवंर मिस्त्री के मकान को शामिल करते हुए अमर धाणक के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर फ्लाईनिंग क्रोस करवाते हुए प्रकाश नाई के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर महाराणा प्रताप चौक तक वहां से पश्चिम की ओर लग्न पैलेस को शामिल करते हुये आर के गार्डन पैलेस तक वहां से उतर की ओर मुड़कर अम्बेडकर भवन को शामिल करते हुए सैन मन्दिर तक वहां से पूर्व की ओर चलकर छात्रावास को शामिल करते हुये दर्शन बाजीगर के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर खेजडी मन्दिर को शामिल करते हुये डा० अमरजीत मिस्त्री के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर निहंगों के गुरुद्वारा को छोड़ते हुए आर के कुलर फैक्ट्री को शामिल करते हुए वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर चैथूराम के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 22

ज्ञानचन्द बाजीगर के मकान से पूर्व की ओर चलकर बहादुर पटवारी के मकान को शामिल करते हुये बलदेव सिंह जाट के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर डाक्टर पृथ्वीराज कडेला के मकान को शामिल करते हुये वहां से पूर्व की ओर मुड़कर जगदीश पटवारी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर से मुड़कर जगदीश पटवारी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर धानू वैल्लिंग वक्रस को शामिल करते हुये साहबेराम भादू के नोहर तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर श्रवण राजपुरोहित के मकान को शामिल करते हुये काशीराम जाट के मकान तक वहां से उतर की ओर मुड़कर बहादुर पटवारी व नगरपालिका को शामिल करते हुए ज्ञानचन्द बाजीगर के मकान तक।

#### वार्ड नम्बर 23

गुरदेव सिंह कुम्हार के मकान से पूर्व की ओर चलकर अर्जुन सिंह जटसिख के मकान को शामिल करते हुए कासीराम भादू के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर देवीलाल सुथार के मकान को शामिल करते हुए मोतीलाल मोबाईल वाले के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर हंसराज टैन्ट वाले के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर चलकर सरदार अली के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर मददी पहलवान के मकान को शामिल करते हुए सहीराम मान्झू के नोहरे से फ्लाईंग क्रास करते हुये प्रभुराम कुम्हार के मकान को शामिल करते हुए काशीराम कुम्हार तक वहां से उतर की ओर मुड़कर जीताराम वैक वाले को शामिल करते हुए गुरदेव सिंह कुम्हार के मकान तक।

वार्ड नम्बर - 24

सादुल सिंह कम्पाउन्डर के मकान से पूर्व की ओर चलकर कृष्ण सुथार के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर लियाकत अली के मकान को शामिल करते हुए राजीव शर्मा के मकान वहां से पूर्व की ओर चलते हुए रामप्रताप जीप मिस्त्री के मकान को शामिल करते हुए लालचंद जोशी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर सुरेन्द्र बैग वाले के मकान को शामिल करते हुए लखोटियां के नोहरे तक वहां से दक्षिण व नोहरे से ऊपर घूमकर पश्चिम की ओर चलकर सुरेश अरोड़ा के मकान को शामिल करते हुए उत्तम सिंह शेखावत् के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर महबूब अली के मकान को शामिल करते हुए सादुल सिंह कम्पाउन्डर के मकान तक।

वार्ड नम्बर - 25

महावीर भादू के मकान से दक्षिण की ओर चलकर जैसाराम सुथार के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर जैसाराम सुथार के नोहरे को शामिल करते हुए वहां से दक्षिण की ओर चलकर भोपाल सर्विस स्टेशन वाले के मकान को शामिल करते हुए युधिष्ठिर शर्मा के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर लालचंद जोशी के मकान तक वहां से दक्षिण की मुड़कर चलकर सुरेन्द्र बैग वाले के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर पुराना कुआं को शामिल करते हुए लालखां के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर मदनलाल भार्गव के मकान व कमल बिजली बोर्ड के मकान को शामिल करते हुए पानी की टंकी तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर स्कूल को शामिल करते हुए महावीर भादू तक ।

वार्ड नम्बर - 26

प्रेम पेड़ीवाल की फैक्ट्री से दक्षिण की ओर चलकर अजय मित्तल पत्रकार के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर मैन रोड़ तक वहां से पूर्व से चलकर तहसील थाना शामिल करते हुए मैन रोड़ पर चलते हुए राजेन्द्र कस्बा की ढाणी को शामिल करते हुए नगरपालिका की पूर्वी सीमा तक वहां से उत्तर की ओर चलकर विजय जाखड़ की ढाणी को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम की ओर केशव



विधापीठ स्कूल पूर्वी-दक्षिणी कोना से गंगानगर रोड़ पर चलते हुए दक्षिण की ओर हरनेक मिस्त्री के मकान को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर जमींदारा फैक्ट्री को शामिल करते हुए प्रेम पड़ीवाल की फैक्ट्री तक।

वार्ड नम्बर - 27

बाबू रोहतकिया के नोहरे से उत्तर की ओर चलकर बालूराम की चक्की को शामिल करते हुए शमशान भूमि व प्रजापति मन्दिर को शामिल करते हुए वहां से पूर्व की ओर चलकर शमशान भूमि की पूर्वी दीवार के साथ साथ दक्षिण की ओर चलकर हरिजन शमशान भूमि तक वहां से पूर्व की ओर चलकर भैरूजी मन्दिर को शामिल करते हुए गुलजार फौजी के मकान को छोड़ते हुए पूर्व की ओर पूर्ण सिंह बावरी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर जुगलकिशोर बिजली वाले मकान को शामिल करते हुए जसपाल मिस्त्री के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर मधाराम दुधवाले के मकान को शामिल करते हुए बाबू रोहतकिया के नोहरे तक ।

वार्ड नम्बर - 28

राजेन्द्र चैटियां के मकान से पश्चिम की ओर चलकर बीरबल सहारण के मकान को शामिल करते हुए अमृतपाल के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर भोमाराम के मकान को शामिल करते हुए गौरीशंकर भाट के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर गुलजार फौजी के मकान तक वहां से शमशान भूमि तक वहां से उत्तर की ओर चलकर दुलमानी रोड़ तक वहां से रोड़ के साथ साथ काशीराम मेघवाल की दुकान को शामिल करते हुए पप्पू राम मेघवाल की मकान तक वहां से पूर्व की ओर 132केवी जीएसएस को शामिल करते हुए इतवारी माली के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर महावीर सिंह राजपूत के मकान तक वहां से थोड़ा घुमकर ठाकुर जी के मन्दिर तक वहां से पूर्व की ओर चलकर शंकरलाल कुम्हार के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर जगदीश भाट के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर हेतराम के मकान को छोड़ते हुए राजेन्द्र चैटियां के मकान तक।

वार्ड नम्बर - 29

औमप्रकाश के मकान से उत्तर की ओर चलकर हेतराम के मकान तक वहां से थोड़ा पूर्व की ओर चलकर जगदीश भाट के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर शंकर कुम्हार के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर चन्दूदेवी के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर फौजा सिंह के मकान को शामिल करते हुए कृष्ण जिन्दल के मकान को शामिल करते हुए रोड़ पर इतवारी माली के मकान को छोड़ते हुए पूर्व की ओर गंगानगर रोड़ तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर गुरजन्ट सिंह रामगढ़िया के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर मंगल सिंह के मकान को शामिल करते हुए औमप्रकाश के मकान तक।

वार्ड नम्बर - 30

विजय जाखड़ की ढाणी नगरपालिका पूर्वी सीमा से पश्चिमी की ओर चलकर केशव विधा पीठ स्कूल को शामिल करते थेंड को शामिल करते हुए कृष्ण डाक्टर की दुकान को शामिल करते हुए वहां से उत्तर की ओर मुड़कर जयनारायण पंडित के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर मनीराम मेघवाल के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर पार्क तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर पूर्णराम मेघवाल के मकान को शामिल करते हुए जगदीश गोदारा के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर जगदीश सहारण के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर पुरखाराम गोदारा के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर नगरपालिका की पीबीएन नहर तक वहां से पूर्व की ओर चलकर ढाणियो को शामिल करते हुए गंगानगर रोड़ क्रोस करते हुए नगरपालिका सीमा तक वहां से दक्षिण की ओर सीमा के साथ साथ चलते हुए विजय जाखड़ की ढाणी तक।

वार्ड नम्बर - 31

जयनारायण के मकान से दक्षिण की ओर चलकर जोहड़ व ओम भादू के मकान को शामिल करते हुए गोपी सुथार की मार्किट तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए इन्द्राज भादू के मकान को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम सुथार आपटिकल के मकान को शामिल करते हुए गुरचरण सिंह के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर भोलाराम पंडित के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर महावीर जी भाकर के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर पन्नाराम भारती के मकान को शामिल करते हुए कुम्भकरण पारिक के मकान को शामिल करते हुए लच्छीराम गोदारा के मकान को शामिल करते हुए भादर मेघवाल के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर मनीराम मेघवाल के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर जयनारायण के मकान तक।

वार्ड नम्बर 32

पीबीएन नहर से बलराम झींझा के खेत से दक्षिण की ओर चलकर रामचन्द्र की दुकान को शामिल करते हुये राजेन्द्र सहारण के मकान तक वहा से पश्चिम कि ओर चलकर प्रेम की चक्की को शामिल करतें हुये फौजा सिंह बाजीगर के मकान तक वहा से उतर की ओर चलकर शंकर सिंह बाजीगर को शामिल करते हुये वाटर वक्रस के साथ साथ लालचंद कुम्हार के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर कलालो की ढाणी तक वहां से उत्तर की ओर चलकर पीबीएन नहर तक वहा से पूर्व की ओर नहर के साथ- साथ बलराम झींझा के खेत तक।

वार्ड नम्बर 33

मिठठू राम नलके वाले के मकान से पश्चिम की ओर वाटर वक्रस व अवतार सिंह मठाडू के मकान को शामिल करते हुये नारायण जमादार के मकान तक। वहा से उतर की ओर मुड़कर रामस्वरूप बिश्नोई को शामिल करते हुये शिव कुमार पुनिया कि ढाणी को छोडते हुये साहब राम पुनिया की

ढाणियों को शामिल करते हुये मुरब्बा नं. 20,21,17,09,06, से पीबीएन नहर तक वहा से पूर्व की ओर मुडकर नहर के साथ-साथ अजमेर गोदारा के खेत तक वहा से दक्षिण की ओर मुडकर कलाला की ढाणी तक। वहा से पूर्व की ओर मुडकर बाबू सिंह बाजीगर के मकान तक वहा से दक्षिण की ओर मुडकर मिठठू राम नलके वाले के मकान तक।

वार्ड नम्बर - 34

साहबराम वाल्मिकी के मकान से उत्तर की तरफ चलकर शिबू पुनियां की ढाणी को शामिल करते हुए मुरबा नम्बर 31,30,29,28,22,16,10 व 5 से पीबीएन नहर तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर रेशम सिंह रमाणा की ढाणी को छोड़ते हुए कृष्ण थालोड की ढाणी तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर पीरबाबा की दरगाह तक वहां से पूर्व की ओर चलकर मेजर सिंह की दुकान व मनीराम शर्मा के मकान को शामिल करते हुए साहबराम वाल्मिकी के मकान तक।

वार्ड नम्बर - 35

गिरधारी सोनी के मकान से दक्षिण की तरफ से हरी कृष्ण सर्वटा के मकान तक। वहा से पश्चिम की तरफ लेखराम कुम्हार को शामिल करते हुये धन्ना गाडे वाला के मकान तक। वहा से दक्षिण की ओर मनीराम कुम्हार व मोहन स्वामी ठेकेदार को शामिल करते हुये करनैल की चक्की के पास खाली नोहरे तक। वहा से थोडा पश्चिम मुडकर व ओमप्रकाश नायक के मकान को शामिल करते हुये बन्ता सिंह डाईवर के नोहरे तक। वहा से देवीलाल कुम्हार के मकान को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर चलकर भुप सिंह बाहाम्रण के मकान को शामिल करते हुये । जोगेन्द्र सिंह जटसिक्ख के मकान तक। वहा से गउशाला की भुमि को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर धान मण्डी के साथ -साथ चलकर गिनानी तक। वहा से पश्चिम मुडकर धोरी खाला तक। वहा से दक्षिण की ओर धोरी खाला के साथ- साथ चलकर गुरचरण चीपा के खेत तक। वहा से पश्चिम मुडकर श्मसान भुमि तक। वहा से श्मसान भुमि के साथ-साथ उतर की ओर चलकर श्मसान भुमि व आईडीएसएमटी कालोनी व हरपाल बाजीगर की ढाणी को छोड़ते हुये नगरपालिका सीमा की पश्चिमी हद तक। वहा से उतर की ओर चलकर नगरपालिका सीमा के साथ-साथ पीबीएन नगर तक। वहा से पूर्व की ओर रेशम रमाणा की ढाणी को शामिल करते हुये कृष्ण थालोड की ढाणी तक। वहा से दक्षिण की ओर पीरखाना तक। वहा से पूर्व की ओर भुप सोनी व बाबा हरी राम मन्दिर को शामिल करते हुये गिरधारी सोनी के मकान तक।

अधिशायी अधिकारी  
नगरपालिका मंडल पीलीबंगा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।